

GDP = Gross Domestic

Product

रै-कल घरेलू उत्पाद

महप्रश्न



Parts of
Smartphone

IC



इंशोफ़ाक

Camera etc



इंशोफ़ाक

(आन्तिम) रफ़्तु और रोजना




Smartphone



इं। लारय

1. GDP ✓

2. GNP = Gross National Product




भारतीय साधनों द्वारा विदेशों में अर्जित आय (A)
(-)

विदेशी साधनों द्वारा भारत में अर्जित आय (B)

इस प्रकार -

$$GNP = GDP + (A - B)$$

इसे एक चित्र की सहायता से
दिया जा सकता है -



$$GNP = GDP + (A - B)$$

or

$$GNP = GDP + A - B$$

or

$$GNP = GDP - B + A$$

+

(-)



GNP

3. $NNP = \text{Net National Product}$

निवल राष्ट्रीय उत्पाद



$GNP - \text{Depreciation}$

मूल्य ह्रास / अपकर्म

मशीनों/उपकरणों की घिसावट का अनुमानित मूल्य।

Note - घिसावट एक प्रकार का नकारात्मक उत्पादन होता है।

4. NNP_{FC} = Net National Product
at Factor Cost

↓
साधन लागत पर
↓
NNP

या
साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद
↓

$NNP_{mp} - \text{Indirect Taxes} + \text{Subsidies}$

OR

$NNP_{mp} - \underbrace{\text{Net Indirect Taxes}}$

(Indirect Taxes - Subsidies)

Note : NNP_{FC} को निम्न नामों से भी सम्बोधित किया जाता है -

NNP_{mp}

(i) $NNI = \text{Net National Income}$

निवल राष्ट्रीय आय

(ii) $NI = \text{National Income}$

राष्ट्रीय आय

1. Labour - Wages $\rightarrow$ ₹ 2

2. Capital - Interest $\rightarrow$ ₹ 1

3. Building - Rent $\rightarrow$ ₹ 1

4. Raw Material - Cost $\rightarrow$ ₹ 3

5. Risk - Profit $\rightarrow$ ₹ 3

Total Factor Cost $\rightarrow$ ₹ 10

Subsidy @ 10% - ₹ 1

MP $\rightarrow$

₹ 9

निष्कर्ष -

(i) $MP = FC$, यदि No Tax
No Subsidy

(ii) $MP > FC$, यदि Tax है,

(iii) $MP < FC$, यदि Subsidy है

GDP

GSDP

DDP